

@Shahjahanpurpol

प्रेस नोट:- सराहनीय कार्य- 24.06.21

थाना पुवायां पुलिस द्वारा निर्धन, बेसहारा महिला को राशन/सब्जी /वस्त्र उपलब्ध कराकर की गयी मदद, जनता द्वारा की जा रही प्रशंसा।

आज दिनांक 24.06.21 को श्री एस आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर को सूचना मिली कि पुवायां थानाक्षेत्र के ग्राम कंजा की रहने वाली श्रीमती मंजू आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है तथा घर में खाने का राशन तक उपलब्ध नहीं है। सूचना पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल प्रभारी निरीक्षक पुवायां श्री कुवर बहादुर सिंह को मौके पर जाकर तत्काल हरसंभव मदद करने के निर्देश दिये।

इसी क्रम में थाना पुवायां पुलिस द्वारा मौके पर गये तो देखा कि महिला की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है तथा पति की मृत्यु एक वर्ष पूर्व हो चुकी है तथा महिला के चार छोटे छोटे बच्चे भी हैं। पत्नी डालकर गुजर बसर कर रही है तथा उक्त महिला बहुत ही परेशान व उदास थी।

थाना पुवाया पुलिस द्वारा उक्त महिला को सांत्वना दी तथा आर्थिक स्थिति को देखते हुए तत्काल राशन का सामान, वस्त्र, आदि उपलब्ध कराया एवं आर्थिक मदद की। इसके अतिरिक्त महिला के रहने हेतु टीनशेड की व्यवस्था की जायेगी। तथा स्थानीय पुलिस द्वारा महिला के सरकारी योजना के अंतर्गत आवास की व्यवस्था हेतु सम्बन्धित अधिकारी से वार्ता की जायेगी तथा महिला को हरसंभव मदद करने का आश्वासन दिया पुलिस द्वारा की गयी राशन आदि की व्यवस्था को देखकर महिला के चेहरे पर खुशी की लहर आ गई। महिला द्वारा शाहजहाँपुर पुलिस का कोटि-कोटि धन्यवाद दिया तथा शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा तत्परता नागरिकों की जा रही मदद के लिये भूरि भूरि प्रशंसा की गयी।

इसी तरह पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशन में शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा जनता को जीवन यापन सम्बन्धी किसी तरह की असुविधा न होने देने के लिये हरसंभव मदद प्रदान की जा रही है। जिसके लिये जनता द्वारा पुलिस को धन्यवाद भी दिया जा रहा है।

उ०प्र०पुलिस सदैव आपकी सेवा में तत्पर।